



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 797 राँची, सोमवार
18 कार्तिक, 1937 (श०)
9 नवम्बर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

4 नवम्बर, 2015

संख्या-1/स्था/श0स्था0नि0-24/2015 न०वि०-4077&नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- IV में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापित स्थान
i	ii	iii	iv
1	श्री घनश्याम कुमार अग्रवाल, कार्यपालक अभियंता	नगर निवेशक, राँची नगर निगम	कार्यपालक अभियंता, जमशेदपुर, अधिसूचित क्षेत्र समिति

2	श्री रामलखन चौधरी, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	कार्यपालक अभियंता, देवघर नगर निगम
3	श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	कार्यपालक अभियंता, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
4	श्री अरूण कुमार, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	कार्यपालक पदाधिकारी, चिरकुण्डा नगर पंचायत
5	श्री रमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	कार्यपालक अभियंता, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
6	श्री अशोक कुमार, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	कार्यपालक अभियंता, राँची जल पर्षद
7	श्री अशोक कुमार चौधरी, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	कार्यपालक अभियंता, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
8	श्री रामाशंकर राम, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	कार्यपालक अभियंता, धनबाद जल पर्षद
9	श्री उमेश्वर नाथ तिवारी, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	कार्यपालक अभियंता, राँची नगर निगम
10	श्री रविन्द्र पाण्डेय, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	कार्यपालक अभियंता, राँची नगर निगम
11	श्री अमरेन्द्र कुमार साहा, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	कार्यपालक अभियंता, विभागीय तकनीकी कोषांग
12	श्री सुरेन्द्र कुमार दिनकर, कार्यपालक अभियंता	कार्यपालक अभियंता विभागीय तकनीकी कोषांग	कार्यपालक पदाधिकारी, चतरा नगर परिषद

13	श्री अरूण कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	कार्यपालक अभियंता, धनबाद नगर निगम
14	श्री आशुतोष कुमार, कार्यपालक अभियंता (प्रभारी)	कार्यपालक पदाधिकारी, मधुपुर नगर परिषद	कार्यपालक पदाधिकारी, विश्रामपुर नगर परिषद
15	श्री गजानन्द राम, नगर निवेशक	नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन	नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन (मुख्यालय)
16	श्री कामदेव दास, सहायक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	सहायक अभियंता, धनबाद नगर निगम
17	श्री उदय शंकर सहाय, सहायक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	सहायक अभियंता, राँची नगर निगम-सह-नगर निवेशक, राँची नगर निगम
18	श्री खागो यादव, सहायक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	सहायक अभियंता, धनबाद जल पर्षद
19	श्री हरि किशुन सिंह, सहायक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	सहायक अभियंता, राँची नगर निगम-सह-नगर निवेशक, राँची नगर निगम
20	श्री प्रेम शोभित लकड़ा, सहायक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	सहायक अभियंता, गिरिडीह नगर परिषद
21	श्री दीपक कुमार महतो, सहायक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	सहायक अभियंता, विभागीय तकनीकी कोषांग
22	श्री गोवर्द्धन राम, सहायक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	सहायक अभियंता, चास नगर निगम

23	श्री मुकेश कुमार, सहायक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	सहायक अभियंता, राँची जल पर्षद
24	श्री कौशलेश कुमार, सहायक अभियंता	सहायक अभियंता, गिरिडीह नगर परिषद	सहायक अभियंता, आदित्यपुर नगर परिषद
25	श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियंता	सहायक अभियंता विभागीय तकनीकी कोषांग, अतिरिक्त प्रभार, राँची नगर निगम	सहायक अभियंता, विभागीय तकनीकी कोषांग
26	श्री संजीव उराँव, सहायक अभियंता	सहायक अभियंता विभागीय तकनीकी कोषांग	सहायक अभियंता, दुमका नगर परिषद
27	श्री सुरेश प्रसाद, सहायक अभियंता	सहायक अभियंता, विभागीय तकनीकी कोषांग	सहायक अभियंता, साहेबगंज नगर परिषद
28	श्री हातिमताई राय, सहायक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग नगर परिषद। कार्यपालक पदाधिकारी, रामगढ नगर परिषद का अतिरिक्त प्रभार।
29	श्री पंकज कुमार झा, सहायक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त	कार्यपालक पदाधिकारी, झुमरीतिलैया नगर परिषद

30	श्री सुनील कुमार, सहायक अभियंता	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, चाईबासा	कार्यपालक पदाधिकारी, गुमला नगर परिषद
31	श्री अरूण कुमार भारती, सहायक अभियंता	कार्यपालक पदाधिकारी, मेदनीनगर नगर परिषद, अतिरिक्त प्रभार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद विश्रामपुर	कार्यपालक पदाधिकारी, मधुपुर नगर परिषद
32	श्री राजीव रंजन सिंह, सहायक अभियंता	कार्यपालक पदाधिकारी, चाकुलिया नगर पंचायत	कार्यपालक पदाधिकारी, राजमहल नगर पंचायत
33	श्री जितेन्द्र कुमार जैसल, सहायक अभियंता	कार्यपालक पदाधिकारी, झुमरीतिलैया नगर परिषद	कार्यपालक पदाधिकारी, सरायकेला नगर परिषद
34	श्री हरिशंकर बारिक, झा0प्र0से0	अंचल अधिकारी, गढ़वा	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गढ़वा का अतिरिक्त प्रभार।
35	श्री गणेश महतो, झा0प्र0से0	अंचलाधिकारी, चाकुलिया	कार्यपालक पदाधिकारी, चाकुलिया नगर पंचायत

36	श्री अजय कुमार साव, झा0प्र0से0	कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग नगर परिषद	कार्यपालक पदाधिकारी, मेदिनीनगर नगर परिषद
37	श्री जय ज्योति सामंता, झा0प्र0से0	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका - सह-कार्यपालक पदाधिकारी, दुमका नगर परिषद	कार्यपालक पदाधिकारी, दुमका नगर परिषद का अतिरिक्त प्रभार।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
राहुल कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
